



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 1981/चैत्र 20, 1903

No. 6] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 1981/CHAITRA 20, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1981

आ. अ. 1(ई) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13-ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तारीख 28 अगस्त, 1979 को अपनी अधिसूचना सं. 429/दा. ना. ह./79(1) को अधि-क्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग, बावरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक—रजिस्ट्रीकरण आफिसर की सहायता करने के लिए निम्नलिखित

अधिकारियों को सहायक निवर्तक रजिस्ट्रीकरण आफीसर के रूप में नियुक्त करता है :—

1. मामलातदार, दादरा और नागर हवेली,
2. प्रशासक के सहायक सचिव, दादरा और नागर हवेली,
3. भूमि सुधार अधिकारी-3, दादरा और नागर हवेली, और
4. भूमि सुधार अधिकारी-4 दादरा और नागर हवेली ।

[सं. 429/दा. ना. ह./81 (1)]

धर्मवीर, अधर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1981

O.N. 1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the Representation of the People Act, 1950, and in supersession of its notification No. 429/DHN/75(1) dated 28th August, 1979, The Election Commission hereby appoints the following officers as Assistant Electoral Registration Officer to assist the Electoral Registration Officer for the Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency :—

1. Mamlatdar, Dadra and Nagar Haveli.
2. Assistant Secretary to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli,
3. Land Reforms Officer-III Dadra and Nagar Haveli, and
4. Land Reforms Officer-IV Dadra and Nagar Haveli.

[No. 429/DNH/81(1)]

DHARAM VIR, Under Secy.